



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
Bharat Heavy Electricals Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking)
CIN: L74899DL1964GOI004281

No. AA/SCY/SEs

Date: 04.12.2025

From: Dr. Yogesh R Chhabra, Company Secretary,
BHEL, Siri Fort, New Delhi – 110049

To: 1. BSE Limited, Mumbai (Through BSE Listing Centre)
2. National Stock Exchange of India Ltd., Mumbai (Through NEAPS)

**Sub: Newspaper Advertisement- Disclosure under SEBI (Listing
Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sir/Madam,

Please find enclosed the copies of advertisement published in the newspapers (Business Standard - English & Hindi edition) on 04.12.2025 regarding notice to shareholders for transfer of dividend and shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) under the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended.

This is for your information and records.

(Dr. Yogesh R Chhabra)
Company Secretary
shareholderquery@bhel.in

**BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED**

CIN: L74899DL1964GOI004281

Regd. Office: "BHEL House", Siri Fort, New Delhi-110049

Tel: 011-66337598

Website: www.bhel.com, E-mail: shareholderquery@bhel.in**NOTICE****(for the attention of Equity Shareholders of the Company)****Sub: Transfer of Equity Shares of the company to Investor****Education and Protection Fund (IEPF) Authority**

Pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, notice is hereby given to those shareholders who have not claimed/encashed any dividend declared by the Company from FY 2018-19 (Interim Dividend) onwards. If they do not claim/encash dividend declared by the Company for seven consecutive years i.e. from 2018-19 (Interim Dividend) onwards on or before 10/03/2026 the Company shall be constrained to transfer their unclaimed dividend along with the underlying shares (without any further notice) to the IEPF after **10th March, 2026**, in accordance with the said Rules. The list of shareholders whose shares are due for transfer, along with folio number or DP ID/Client ID is available on the Company's website at <https://bhel.com/shareholders-who-have-not-claimed-dividend-consecutively-2018-19-interim-dividend>. Further, in compliance with the requirements of the Rules, the Company has also individually communicated to the concerned shareholders, at their latest available addresses, whose shares are liable to be transferred to the IEPF.

Shareholders are advised to claim/encash unclaimed dividend by above mentioned date by sending a formal letter alongwith requisite documents to our Registrar & Share Transfer Agent, **M/s Alankit Assignments Limited**.

Please note that:-

- 1) Both the unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the shareholder from IEPF Authority after following the procedure prescribed by the Rules.
- 2) In case the shareholders have any queries on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent at **M/s Alankit Assignments Limited**, Shri Ramesh Khatua, 4E/2 Alankit House, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 **Tel.:** 011-42541234; **Email:** rta@alankit.com and **Website:** www.alankit.com
- 3) Shareholders may please note that:-
 - a) Shareholders holding shares in demat form may contact the respective Depository Participants (D.P.) to avail the NECS/ECS facility or to update Address/Bank Details/NECS/ECS Mandate, if any.
 - b) Shareholders holding shares in physical form may contact our RTA for any updation in address/Bank Details, NECS/ECS Mandate.
 - c) To support the Company's Green Initiative, the shareholders are requested to register their email id's with their D.P. (in case of shares in demat form) and with our RTA at rta@alankit.com (in case of shares in physical form).

For Bharat Heavy Electricals Limited

Sd/-

Place: New Delhi

Date: 03 December, 2025

Dr. Yogesh R Chhabra
COMPANY SECRETARY

बीएचईएल



भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1964GOI004281

पंजी. कार्यालय: "बीएचईएल हाउस", सीरी फोर्ट, नई दिल्ली-110049

फोन: 011-66337598

वेबसाइट: www.bhel.com, ईमेल: shareholderquery@bhel.in

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों को सूचित करने हेतु)

विषय: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण में कम्पनी के लाभांश एवं इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम 2016 यथा संशोधित के अनुसरण में प्रकाशित की जा रही है। उन शेयरधारकों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतरिम लाभांश) से घोषित किसी लाभांश का दावा नहीं किया है/भुनाया नहीं है। यदि उन्होंने कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश का लगातार सात वर्षों अर्थात् 2018-19 (अंतरिम लाभांश) से 10.03.2026 को या उससे पूर्व दावा नहीं किया है/भुनाते नहीं हैं, तो कम्पनी उपरोक्त नियमों का पालन करते हुये उनके अंतर्निहित शेयरों सहित दावा न किये गये लाभांश को (कोई और सूचना दिये बिना) 10 मार्च, 2026 के बाद आईईपीएफ में स्थानांतरण हेतु बाध्य होगी। जिन शेयरधारकों के शेयर स्थानांतरण के लिए दायी हैं, उनकी सूची शेयर फोलियो नम्बर या डीपी आईडी/ग्राहक आईडी के साथ कम्पनी की वेबसाइट <https://bhel.com/shareholders-who-have-not-claimed-dividend-consecutively-2018-19-interim-dividend> पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, नियमों की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए, कम्पनी ने आईईपीएफ को अंतरण के योग्य सभी शेयरों के संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से भी उनके नवीनतम उपलब्ध पत्तों पर सूचित किया है।

शेयरधारकों को परामर्श दिया जाता है कि वे उपरोक्त तिथि तक अपेक्षित दस्तावेजों सहित एक आवेदन पत्र हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड के पास भेज कर दावा न किए गये लाभांश का दावा करें/भुना लें।

कृपया ध्यान दें:-

- 1) शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण के खाते में हस्तांतरित किए गये दावा न किये गये लाभांश और शेयर एवं उन पर उपार्जित लाभ सहित, यदि कोई हो, नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा करके वापस ले सकते हैं।
- 2) इस मामले में किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु शेयरधारक कृपया सम्पर्क करें- कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, श्री रमेश खटुआ, 4ई/2 अलंकित हाउस, इंडियालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, फोन: 011-42541234; ई-मेल: rita@alankit.com और वेबसाइट: www.alankit.com
- 3) शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि :-
क) डीमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डी.पी.) से संपर्क कर सकते हैं ताकि एनईसीएस/ईसीएस सुविधा का लाभ उठा सकें या पता/बैंक डिटेल्स/एनईसीएस/ईसीएस मैडेट को यदि कोई हो तो अपडेट कर सकते हैं।
ख) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक पता/बैंक विवरण, एनईसीएस/ईसीएस मैडेट में किसी भी अपडेशन के लिए हमारे आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।
ग) कम्पनी की ग्रीन पहल का समर्थन करने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने ई-मेल आईडी को अपने डी.पी. के साथ (यदि शेयर डीमेट फॉर्म में हो) तथा हमारे आरटीए के साथ ई-मेल rita@alankit.com पर (यदि शेयर भौतिक रूप में हो) पंजीकृत करें।

कृते भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 03 दिसंबर, 2025

डा. योगेश आर छाबड़ा

कंपनी सचिव